

**राजभवन में पांच दिवसीय कला कार्यशाला का उद्घाटन**

**राज्यपाल 10 जून को करेंगे समापन एवं प्रमाण पत्र वितरण**

लखनऊ: 6 जून, 2019

ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला संस्थान, नई दिल्ली तथा संस्कार भारती उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में राजभवन उत्तर प्रदेश में 6 जून से 10 जून 2019 तक पांच दिवसीय कला कार्यशाला का अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल श्री हेमन्त राव ने आज उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष श्री उत्तम पाचारणे, विशेष सचिव श्री राज्यपाल डॉ० अशोक चन्द्र, संस्कार भारती के संगठन मंत्री श्री गिरीश चन्द्र तथा कलाकार उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि इस कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल श्री राम नाईक द्वारा किया जाना था परन्तु राज्यपाल के प्रदेश के बाहर होने के कारण कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री हेमन्त राव द्वारा किया गया है। राज्यपाल श्री राम नाईक 10 जून 2019 को कला कार्यशाला के समापन के अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित करेंगे।

राजभवन में आयोजित कला कार्यशाला में 10 विख्यात कलाकार में सांगली महाराष्ट्र से श्री मांगेश आनंदराव रातिल, औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्री नानासाहेब भाउशेब येओले, पुणे महाराष्ट्र से श्री उत्तम रामचंद्र साठे, लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री अमित कुमार, महाराष्ट्र से श्री मनोज कुमार एम० सकाले, लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री भारत भूषण शर्मा, उत्तर प्रदेश से श्री कमलेश्वर शर्मा, महाराष्ट्र से श्री सत्यजीत वारेकर, पुणे महाराष्ट्र से श्रीमती मंजीरी महेन्द्र भोरे एवं पुणे महाराष्ट्र से सुश्री सुरभि के. गुलवेलकर प्रतिभाग कर रहे हैं।

कार्यशाला की अवधि में प्रतिभाग करने वाले कलाकार राजभवन का भी भ्रमण करेंगे। कार्यशाला की स्मृतियों को सहेजने की दृष्टि से कलाकार अपनी पसंद से राजभवन परिसर की खूबसूरती को भी अपने चित्रों के माध्यम से कैनवास पर उकेरेंगे।

-----

अंजुम/ललित/राजभवन (193/9)



